



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 330]
No. 330]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 13, 1979/श्रावण 22, 1901
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 13, 1979/SRAVANA 22, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1979

क्र. आ. 470 (अ).—अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जन जातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 8 की उपधारा (1) के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (3) के खण्ड (घ) के अधीन किया गया निम्नीलिखित आदेश एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जन जातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 8 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन, संसदीय और विधान सभा निर्वाचनक्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में संशोधन करने के लिए निर्वाचन आयोग की प्रस्थापनाएं भारत के राजपत्र और हिमाचल प्रदेश राज्य के राजपत्र में तारीख 9 सितम्बर, 1977 को प्रकाशित की गई थीं ;

और, इस आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के बारे में उक्त प्रस्थापनाओं के सम्बन्ध में प्राप्त सभी आक्षेपों और सुझावों पर, शिमला में तारीख 5 और 6 जून, 1979 को की गई सार्वजनिक बैठकों में विचार किया गया था ;

यह आयोग हिमाचल प्रदेश राज्य के बारे में संसदीय और विधान सभा निर्वाचनक्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में (ऐसे आदेश में ध्यादीर्शित किसी निर्वाचनक्षेत्र के विस्तार में कोई परिवर्तन न करत हुए) निम्नीलिखित संशोधन करता है :—

1. उक्त आदेश की अनुसूची 2 में—मव 6-हिमाचल प्रदेश के सामने स्तम्भ 6 के नीचे, अंक "15" के स्थान पर अंक "16" रखा जाएगा।

2. उक्त आदेश की अनुसूची 8 में—

(1) भाग क-संसदीय निर्वाचनक्षेत्र में, 1-शिमला (अ. जा.) में, "16-रेणका" प्रविष्टि के स्थान पर, "16-रेणका (अ. जा.)" प्रविष्टि रखी जाएगी, तथा

(2) भाग-ख-सभा निर्वाचनक्षेत्र में निर्वाचनक्षेत्र की क्रम सं. तथा नाम "16-रेणका" के स्थान पर "16-रेणका (अ. जा.)" रखा जाएगा।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 3rd August, 1979

S.O. 470(E).—In pursuance of sub-section (1) of section 8 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976, the following Order made by the Election Commission under clause (d) of sub-section (3) of section 6 of the Act is hereby published :—

ORDER

Whereas under clause (a) of sub-section (3) of section 6 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976, the proposals of the Election Commission to amend the Delimitation of Parliamentary and Assembly

Constituencies Order, 1976, were published in the Gazette of India and in the official Gazette of State of Himachal Pradesh on 9th September, 1977;

And whereas all objections and suggestions received in relation to the said proposals relating to the State of Himachal Pradesh were considered by the Commission at public sittings held at Simla on 5th and 6th June, 1979;

The Commission hereby makes the following amendments in the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 (without altering the extent of any constituency as given in such Order) in respect of the State of Himachal Pradesh—

- I. In Schedule II of the said Order, against item 6—Himachal Pradesh—under column 6, the figure “16” shall be substituted for the figure “15.”

II. In Schedule VIII of the said Order—

- (1) in Part A—Parliamentary Constituencies—in 1-Simla (SC), the entry “16-Rainka (SC)”, shall be substituted for the existing entry “16-Rainka”; and
- (2) in Part B—Assembly Constituencies—the serial number and name of the constituency “16-Rainka (SC)” shall be substituted for “16-Rainka”.

S. L. SHAKDHER, Chief Election Commissioner of India

By order,

[No. 282/HP/SC-ST/79]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.